



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1938 (श०)

(सं० पटना ७८३) पटना, बृहस्पतिवार, १७ नवम्बर २०१६

परिवहन विभाग

अधिसूचना

१६ नवम्बर २०१६

सं० ०२/सी०ए०टी०(शुल्क संशोधन)–३५/२०१४–६७३६—मोटरयान अधिनियम, १९८८ (अधिनियम संख्या ५९, १९८८) की धारा—२११ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, राज्यपाल, परिवहन विभाग की अधिसूचना सं० जी०ए०आर० १६, दिनांक ७ अक्टुबर, १९९६ का संशोधन करना चाहते हैं जिसका अधिनियम की धारा—२१२ द्वारा यथापेक्षित निम्नलिखित प्रारूप, एतद् द्वारा, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और उसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के भीतर उक्त अधिसूचना प्रारूप के संबंध में सभी संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार किया जायेगा:—

#### संशोधन प्रारूप

मोटरयान अधिनियम, १९८८ (अधिनियम संख्या ५९, १९८८) की धारा—२१२ (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार—राज्यपाल, परिवहन विभाग की अधिसूचना सं० जी०ए०आर० १६, दिनांक ७ अक्टुबर, १९९६ का संशोधन करते हैं जिसका पूर्व प्रकाशन ..... उक्त अधिनियम की धारा—२१२ की अपेक्षा के अनुसार जी०ए०आर० ....., दिनांक ..... द्वारा किया जा चुका है।

अनुसूची-II

बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के निम्नलिखित नियमों के अधीन निम्नलिखित फीस और अधिभार की राशि विनिश्चित की जाती है।

भुगतेय फीस एवं अधिभार की राशि

भुगतेय फीस की राशि	भुगतेय अधिभार की राशि
1. नियम 30 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु जाँच फीस 20 रुपये	— 150 रु०
2. नियम 36 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति प्रतिस्थापन फीस 30 रुपये	— 170 रु०
3. नियम 34 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति पर प्रतिस्थापन फीस 10 रुपये	— 90 रु०
4. नियम 35 के तहत संवाहक अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति के लिए फीस 20 रुपये	— 150 रु०
5. नियम 37 के तहत अपील के लिए फीस 20 रुपये	— 150 रु०
6. नियम 37 के तहत दस्तावेज की प्रति के लिए फीस 20 रुपये	— 150 रु०

अधिनियम के अध्याय IV के अधीन

1.(क) नियम 41 के उप-नियम (i) में अपील के लिये फीस 50 रुपये	— 250 रु०
(ख) नियम 41 के उप-नियम (ii) एवं (iii) में अपील के लिये फीस	— 250 रु०
2. नियम 47 के तहत प्रदत्त सुविधा के लिए प्रति मोटरवाहन फीस 10 रुपये	— 490 रु०
3. नियम 52 (2) के अधीन योग्यता प्रमाण-पत्र के वैधता विस्तार के लिए फीस 20 रुपये	— 180 रु०
4. नियम 53 के उप-नियम (i) के अधीन अस्थायी निबंधन प्रमाण-पत्र एवं प्रत्येक अवधि विस्तार के लिए फीस 20 रुपये	— 130 रु०
	2 / 3 पहिया वाहन एल०एम०भी० — 280 रु०
	एम०एम०भी० 480 रु०
	एच०एम०भी० 680 रु०
5. नियम 58 के उप-नियम (2) एवं (3) के अधीन दस्तावेज की प्रति के लिये फीस 10 रु०	— 190 रु०
6. नियम 58 के अधीन वाहन के निबंधन की प्रविष्टियों की प्रति निबंधन के लिये फीस 10 रुपये	— 190 रु०
7. अस्थायी निबंधन प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति के लिये फीस 10 रुपये	— 490 रु०
8. योग्यता प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति के लिये फीस 7.50 रु०	— 50 रु०
	2 / 3 पहिया वाहन एल०एम०भी० — 100 रु०
	एम०एम०भी० 150 रु०
	एच०एम०भी० 200 रु०
9. 190 धारा-114 '1' के अन्तर्गत अतिभारित वाहनों से हटाये गये सामानों के भंडारीकरण के लिये फीस प्रत्येक 100 कि०मी० ग्रा०भार पर 5 रु० प्रतिदिन	—
10. स्वामित्व स्थानांतरण के समय वाहन के निरीक्षण हेतु फीस	— 500 रु०

### अधिनियम के अध्याय II के अधीन

1.	नियम 4 के अधीन शिक्षिक्षु अनुज्ञाप्ति की मंजुरी हेतु प्रत्येक जाँच के लिए फीस 20 रुपये	— 150 रु०
2.	चालक अनुज्ञाप्ति की मंजुरी हेतु प्रत्येक जाँच के लिए फीस 50 रुपये	— 450 रु०
3.	नियम 12 के अधीन चालक अनुज्ञाप्ति पर सटे फोटो प्रतिस्थापन के लिए फीस 10 रुपये	— 150 रु०
4.	नियम 13 के अधीन चालक अनुज्ञाप्ति की द्वितीय प्रति के लिए फीस 30 रुपये	— 170 रु०
5.	नियम 18 के अधीन अधिप्रमाण-पत्र की मंजुरी हेतु प्रत्येक जाँच के लिए फीस 20 रुपये	— 180 रु०
6.	नियम 20 के अन्तर्गत अपील के लिये फीस 30 रुपये	— 170 रु०
7.	नियम 20 के अधीन दस्तावेज की प्रत्येक प्रति के लिये फीस 30 रुपये	— 180 रु०
8.	नियम 21 के अधीन चालक अनुज्ञाप्ति की विवरणी की प्रत्येक प्रति के लिये फीस 10 रु०	— 90 रु०
9.	धारा-8 की उप-धारा 3 के अधीन जारी किये जाने जानेवाले चिकित्सा प्रमाण-पत्र के लिये फीस 10 रुपये	— 90 रु०

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुजाता चतुर्वेदी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

### 16 नवम्बर 2016

सं 02/सी0एम0टी0(शुल्क संशोधन)-35/2014-6736, दिनांक 16 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खड 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुजाता चतुर्वेदी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

### *The 16<sup>th</sup> November 2016*

No. 02/सी0एम0टी0(शुल्क संशोधन)-35/2014-6736—In exercise of the powers conferred by sec-211 of the Motor Vehicle Act, 1988, (Act 59,1988) the Governor of Bihar desires to make the G.S.R. No. 16, dated 7<sup>th</sup> October 1996 the following draft which is hereby published for the information of the persons to be affected by it as required by section 212 of the Act and it is hereby given notice that all objection and suggestions relating to the said draft of notification received within a month through all Joint commissioner -cum- secretary, Regional Transport Authority and District Transport Officer, Bihar will be considered.

### Draft of Notification

In exercise of the powers conferred by sec-211 of the Motor Vehicle Act 1988, (Act 59,1988) the Governor of Bihar is pleased to amend the Prior publication of which required under section 212 of the Act has been done through G.S.R. No. ..... dated .....

**Annexure-II**

**The fee and surcharge payable under following Rule of Bihar Motor Vehicle Rules, 1992:-**

<b>Payable fees</b>	<b>Payable Surcharge</b>
1. Under rule 30 fee for enquiry of conductor's license Rs. 20	— Rs. 150
2. Under rule 30 fee for replacements of conductor's license Rs. 30	— Rs. 170
3. Under rule 34 fee for replacement of photograph on conductors license Rs. 10	— Rs. 90
4. Under rule 35 fee for duplicate copy of conductor's license Rs.20	— Rs. 150
5. Under rule 37 fee for Appeal Rs. 20	— Rs. 150
6. Under rule 37 fee for copy of document Rs. 20	— Rs. 150

**Under Section IV of Act**

1.(a) under rule 41 of sub-section (i) fee for Appeal	Rs. 50	—	Rs. 250
(b) under rule 41 of sub-section (ii) & (iii) fee for Appeal	Rs. 50	—	Rs. 250
2. Under rule 47 fee for facility of copy of Motor Vehicle	Rs.10	—	Rs. 490
3. Under rule 52 (2) fee for extension of C.F.	Rs. 20	—	Rs. 180
4. Under rule 53 (i) fee for temporary registration certificate and time extension	Rs. 20	2/3 wheelers	— Rs. 130
		L.M.V.	— Rs. 280
		M.M.V.	Rs. 480
		H.M.V.	Rs. 680
5. Under rule 58 (2) & (3) fee for copy of documents	Rs. 10	—	Rs. 190
6. Under rule 58 fee for copy of entry of the registration of vehicles	Rs. 10	—	Rs. 190
7. Fee for duplicate copy of temporary registration certificate	Rs.10	—	Rs. 490
8. Fee for duplicate copy of the certificate of fitness	Rs. 7.50	2/3 wheelers	— Rs. 50
		L.M.V.	— Rs. 100
		M.M.V.	— Rs. 150
		H.M.V.	— Rs. 200
9. 190. under rule 114 (i) fee for the storage for the goods replaced from overload vehicles	Rs. 51 for 100 kgs. per day.	—	Rs.
10. Fee for inspection of Motor Vehicle at the time of transfer of ownership		—	Rs. 500

**Under Section II of Act**

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1. Under rule 4 fee for enquiry for grant of learners license RS. 20              | — | RS. 150 |
| 2. Fee for enquiry for grant of driving license Rs. 50                            | — | Rs. 450 |
| 3. Under rule 12 fee for replacement of photograph attached in the license Rs. 10 | — | Rs. 150 |
| 4. Under rule 13 fee for duplicate copy of driving license Rs. 30                 | — | Rs. 170 |
| 5. Under rule 18 fee for enquiry for grant of certificate Rs. 20                  | — | Rs. 180 |
| 6. Under rule 20 fee for Appeal Rs. 30  | — | Rs. 170 |
| 7. Under rule 20 fee for entry duplicate copy of document Rs. 30                  | — | Rs. 180 |
| 8. Under rule 21 fee for entry description of driving license Rs. 10              | — | Rs. 90  |
| 9. Under sub-rule 3 of section 8 fee for issuing medical certificate<br>Rs. 10    | — | Rs. 90  |

By order of the Governor of Bihar,  
 SUJATA CHATURVEDI,  
*Principal secretary to Government.*

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 983-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>